

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, नवम्बर 14—नवम्बर 20, 2004, शनिवार/कार्तिक 23—कार्तिक 29, 1926
No. 26] NEW DELHI, NOVEMBER 14—NOVEMBER 20, 2004, SATURDAY/KARTIKA 23—KARTIKA 29, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ०अ० 62.—यतः 20-सुन्दरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा, 2004 का निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी सुश्री राधिका इक्का, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

यतः सुश्री राधिका इक्का ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में सुश्री राधिका इक्का को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिता घोषित करता है।

[सं० 76/उडी०-लो०स०/2004]

आदेश से,

आर० के० श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O.N. 62.—Whereas, Ms. Radhika Ekka a contesting candidate at the election to the House of the People, 2004 held from 20-Sundargarh (ST) Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of her election expenses, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, Ms. Radhika Ekka has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission;

And whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Ms. Radhika Ekka to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of 3 years from the date of this order.

[No. 76 /OR-HP/2004]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ०अ० 63.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है :

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रम संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	65-दासकोई	यादव सुरेश महावीर, मनोकामना सोसायटी, भाग-1, इसानपुर, अहमदाबाद।	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	-वही-	-वही-	चौहान कालाजी भिमाजी चांदीयाल, टाबे भाटपुरा, तालुक, जिला अहमदाबाद	-वही-
3.	-वही-	68-इल्लिसपुल	शाह समीरभाई नरेशचंद्र, 18, नीलपर्णा सोसायटी, भाग-1, न्यू विकास गुरू रोड, पाल्दी, अहमदाबाद।	-वही-

1	2	3	4	5
4.	विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	72-असारवा	रामभाई वर्मा, पुष्पा नगर, भागवती विद्यालय के पास, मेवानी नगर।	लेखा दाखिल नहीं किया
5.	-वही-	-वही-	डोडिया दिनेशकुमार कालिदास, 10/470 सी कालोनी, अशोक मिल के सामने, नरोदा रोड, अहमदाबाद।	लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया
6.	-वही-	-वही-	परमार जयन्ती भाई हीराभाई, 307/सी/68, सिद्धार्थ नगर, (फुलचन्द नी चाली), सारसपुर, अहमदाबाद।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	यादव सुभाषसिंह मानसिंह, प्रेमनगर, मेमको, अनिल वकील की चाल, अहमदाबाद।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	पटेल अमरीश, नरेन्द्र भाई, 104, महाराणाप्रताप काम्पलैक्स, वी.एस. हास्पिटल के पास, इल्लिसपुल, अहमदाबाद।	-वही-
9.	-वही-	-वही-	राठौड़ नरनभाई पुंजाभाई, 121/6, अरयोदाया मिल की चाल, अमदुपुरा, नरोदा रोड, अहमदाबाद।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	बन्जारा दशरथभाई मिश्रीलाल, 58, जयहिन्द सोसायटी, मोहन सिनेमा के सामने, असारवा, अहमदाबाद।	-वही-
11.	-वही-	72-असोखा	वाघेला दिनेश कुमार परचोत्तमदास, 2/73 विजयमिल म्युनिसिपल हेल्थ क्वार्टरस, नरोदा रोड, अहमदाबाद	-वही-
12.	-वही-	-वही-	शंकरभाई मफतलाल पाटनी, प्लॉट नं. 879/1, सैक्टर 7 सी, गांधी नगर।	-वही-

[सं० 76/गुज०/2003]

आदेश से,
एस० के० कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O.N. 63.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Gujarat Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2002	65-Dascroi	Yadav Suresh Mahavir, Manokamna Society Part-1, Isanpur, Ahmedabad	Account not lodged
2.	-do-	-do-	Chauhan Kalaji Bhemaji, Chandiyal, Tabe Bhatpura, Ta. Dascroi, Dist. Ahmedabad	-do-
3.	-do-	68-Ellisbridge	Shah Samirbhai Nareshchandra, 18, Nilparna Society, Part-1, New Vikas Gruh Road, Paldi, Ahmedabad-7	—do—
4.	-do-	72-Asarwa	Khushal Rambhai Verma, Pushpa Nagar, Near Bhagwati Vidyalaya, Meghani Nagar	—do—
5.	-do-	-do-	Dodiya Dineshkumar Kalidas, 10/470, "C" Coloni, Opp Ashok Mill, Naroda Road, Ahmedabad	Account not lodged in the manner required by law
6.	-do-	-do-	Parmar Jayantibhai Hirabhai, 307/C/68, Siddharth Nagar, (Fulchand Ni Chali), Saraspur, Ahmedabad	-do-
7.	-do-	-do-	Yadav Subhashsing Mansing, Prem Nagar, Memco, Anil Vakil's Chawl, Ahmedabad	-do-

1	2	3	4	5
8.	General Election to the Legislative Assembly, 2002	72-Asarwa	Patel Amrish Narendrabhai, 104, Maha Ranapratap Complex, Near V. S. Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad	Account not lodged in the manner required by law
9.	-do-	-do-	Rathod Naranbhai Punjabhai, 121/6, Aryodaya Mill's Chawl, Amdupura, Naroda Road, Ahmedabad	-do-
10.	-do-	-do-	Vanzara Dashrathbhai Mishrilal, 58, Jayhind Society, Opp. Mohan Cinema, Asarwa, Ahmedabad.	-do-
11.	-do-	-do-	Vaghela Dineshkumar Parsotamdas, 2/73, Vijay Mill, Municipal Health Quarters, Naroda Road, Ahmedabad	-do-
12.	-do-	-do-	Shankerbhai Mafatlal Patni, Plot No. 879/1, Sector 7-C, Gandhinagar	-do-

[No. 76/GJ./2003]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ० अ० 64. — यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट राजस्थान लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता के कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2004	6-जयपुर	श्री विजय राठी राम तीर्थ मार्ग, अग्रवाल फार्म, जयपुर, राजस्थान।	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।
2.	-वही-	-वही-	श्री इफतखार, 5542, संजय मार्केट, सागानेरी गेट, जयपुर, राजस्थान।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

3333 GI/04-2

1	2	3	4	5
3.	लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन 2004	6-जयपुर	श्री इंद्रजीत सिंह, 621-एच, हिरण मगरी, सेक्टर —11, उदयपुर, राजस्थान।	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।
4.	-वही-	12-अजमेर	श्री स्वामी कृष्णानन्द महाराज, सत्यास आश्रम, कालेज के सामने, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5.	-वही-	-वही-	श्री रामपाल कोली, प्लॉट नं. 59, मकान नं. 1518, बार्ड 36, क्षलकारी नगर, नगरा, अजमेर, राजस्थान।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6.	-वही-	13-टोंक	राम बाबु रैगर, 35, थोली कोठी, चांद सेन, तहसील— मालपुरा, जिला— टोंक, राजस्थान।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

[सं० 76/राज०-लो०स०/2004]

आदेश से

एस. के. कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O.N. 64.— Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 for the State of Rajasthan specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004	6-Jaipur	Sh. Vijay Rathi, 111/113, Ram Teerth Marg, Agarwal Farm, Jaipur, Rajasthan	Account not lodged in the manner required by Law.
2.	—do—	—do—	Sh. Ifkhar, 5542, Sanay Market, Sanaganeri Gate., Jaipur, Rajasthan	Account not lodged

1	2	3	4	5
3.	General Election to the Lok Sabha, 2004	6-Jaipur	Sh. Inderjeet Singh, 621-H Hiran Magri, Sector-11, Udaipur, Rajasthan	Account no lodged in the manner required by Law
4.	—do—	12-Ajmer	Sh. Swami Krishnanand Maharaj, Sanyas Ashram College Ke Samne, Beawar, Ajmer, Rajasthan	Account not lodged
5.	—do—	—do—	Sh. Rampal Koli Plot No. 59, H. No. 1518, Ward No. 36, Jhalkari Nagar, Nagra Ajmer	—do—
6.	—do—	13-Tonk	Shri Ram Babu Raiger 35, Dholikothi Chandsen Tehsil Malpura Distt. Tonk	—do—

[No. 76/RJ-H.P./2004]

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ० अ० 65.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट गुजरात लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	3-जामनगर	कुंगडा जुसाब सीदीक, नंधनीपीर दरगाह के पास, सरमत मुंगा, सिक्का, ता. जामनगर	लेखा दाखिल नहीं किया
2.	—वही—	—वही—	चावड़ा देवयात जीवाभाई टी. बी. अस्पताल के पीछे मटरू आशीष सोसायटी, गली नं. 2, नवागाम (बेड) ता. जामनगर	—वही—

1	2	3	4	5
3.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	3-जामनगर	जोगेल मनीलाल देवजीभाई शंकर टेकड़ी, नेहरू नगर, गली नं. 8 ए, जामनगर	लेखा दाखिल नहीं किया
4.	-वही-	9-धन्धुका (अ.जा.)	जयाबेन मगनभाई राणवा पो. अमरपुर (वरुडी) अम्बेडकरनगर, ता. जिला—अमरेली, पिन—365601	-वही-
5.	-वही-	10-अहमदाबाद	नायक सन्जुदे कलादे पावडुया, ब्लॉक नं. 14, कमरा सं. 330 म्यूनिसिपल क्वार्टर, अमराईवाडी, अहमदाबाद	-वही-
6.	-वही-	11-गान्धीनगर	एल. एन. मेडीपल्ली (वकील) हीरेन चैम्बर्स, प्रकाश पेट्रोल पम्प के पास, बापूनगर, अहमदाबाद	-वही-
7.	-वही-	14-बनसकंथा	यादव सुरेश महावीरभाई 18, प्रेरणा सोसायटी, विभाग-4, अहमदाबाद-382443	-वही-

[सं. 76/गुज.-लो.स./2004(1)]

आदेश से,
एस. के. कौरा, सचिव**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2004

O. N. 65 .—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2004 for Gujarat State specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl.	Particulars of Election	Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of Contesting Candidats	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2004	3-Jamnagar	Kungda Jusab Sidik, Near Nanghanipir Dargah, Sarmat Bhunga, Sikka, Tal. Jamnagar	Account not lodged
2.	—do—	—do—	Chavada Devayat Jivabhai, Behind T. B. Hospital. Matru Ashish Society, St. No. 2 Navagam Ghed Tal. Jamnagar	—do—
3.	—do—	—do—	Jogel Manilal Devjibhai, Shanker Tekri, Nehru Nagar St. No. 8A, Jamnagar	—do—
4.	—do—	9-Dhandhuka(SC)	Jayaben Maganbhai Ranva, P.O.-Amarpur (Varudi), Ambedkarnagar, Ta. District- Amreli, PIN-365601	—do—
5.	—do—	10-Ahmedabad	Nayak Sanjude Kalade Pavaiya, Block No. 14, Room No. 330 Municipal Quarters, Amraiwadi, Ahmedabad	—do—
6.	—do—	11-Gandhinagar	L. N. Medipally (Adyocate) Hiren Chambers, Near Prakash Petrol Pump, Bapunagar, Ahmedabad	—do—
7.	—do—	14-Banaskantha	Yadav Suresh Mahavirbhai, 18, Prerana Society, Vibhag-4, Ahmedabad-382443	—do—

[No. 76/GJ-H.P./2004(1)]

By Order,

S. K. KAURA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ. अ. 66.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु राज्य से लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन 2004 के लिए जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा और विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :

3333 GI/04-3

सारणी

क्रम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सं० की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3
4		
1. 16-सलेम	श्री राजावेल आर. नं. 1/7/48/25, कारूकमपालायाथनस्ट्रीट, वेलानाथम, अद्रायामपट्टी, सलेम तालुक, तामिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया।
2. 22-पलानी	श्री सूब्रामणियम, टी. सुपुत्र के. तिरूमालाईसामी, वेल्लुर, चिन्नापुथुर पोस्ट, चारापुरम तालुक, इरोड जिला, तामिलनाडु	-वही-
3. 23-डिन्डीगुल	श्री थिनाकर कुमार टी. सुपुत्र के. एन. पलानीवेल, 170 नाडु थेरू, पलाईयुस मेडु, पेट्राविथालईय, मदुराई जिला-639112, तामिलनाडु	विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4. 24-मदुराई	श्री बासकरन, एस. 196/79, सोनइकोइल थोपे अरापालयम, मदुराई-625016, तामिलनाडु	लेखा दाखिल नहीं किया।
5. 32-पुडुक्कोटाई	श्री नगूरन, ए. नल्लुर, हरिजन कालोनी, मानामेलकुडी, तामिलनाडु	-वही-
6. 32-पुडुक्कोटाई	श्री पेरियासामी, आर. नं. 20, थईस्ट्रीट, राजागोलालापुरम, पुडुक्कोटाई, तामिलनाडु	-वही-

[सं० 76/त० ना०-लो०स०/2003]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O. N. 66 .—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 held from the Constituencies of Tamil Nadu State as specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being, chosen as and for being a member of either

House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. & Name of Parliamentary No. Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1 2	3	4
1. 16-Salem	Sh. Rajavel. R No. 1/7/48/25, Karukkampalayathan Street, Velanatham, Attayampatti, Salem Taluk, Tamil Nadu.	Failed to lodge the account in the manner required by law.
2. 22-Palani	Sh. Subramaniam, T. S/o K. Thirumalaisamy, Velur, Chinnaputhur Post, Dharapuram Taluk, Erode District, Tamil Nadu.	Accounts not lodged
3. 23-Dindigul	Shri Thinakara Kumar, P. S/o N. Palanivel, 170, Nadu Theru, Palaiyur Medu, Pettavithalai, Trichirappalli District-639112, Tamil Nadu.	Accounts not lodged
4. 24-Madurai	Sh. Baskaran, S. 196/79, Sonaikoil Thope, Arappalayam, Madurai-625016 Tamil Nadu.	Accounts not lodged
5. 32-Pudukkottai	Sh. Nagooran, A, Nallur, Harijana Colony, Manamelkud, Tamil Nadu.	Accounts not lodged
6. 32-Pudukkottai	Sh. Periyasamy, R. No. 20, 3rd Street, Rajagopalapuram, Pudukkottai, Tamil Nadu.	Accounts not lodged

[No. 76/T.N.H.P./2004]

TAPAS KAUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ० अ० 67.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल राज्य से लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन 2004 के लिए जो स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में हुआ है, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा/विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन

वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :

सारणी

क्रम सं०	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	1-कासरगौड	श्री एम. ए. मोहम्मद, सुपुत्र अब्दुल खादर, मोट्टायिल हाउस, पानालाम, चेरूर (पो.) केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	2-कन्नानोर	श्री एम. रामचन्द्रन, मिनुकी हाउस, पो. ओ. कोट्टायम, मालाबार, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	7-पालाक्कड	श्री के. कुट्टीकुस्पन, मुथालाकुलम कालोनी, कावासेरी पो. पालाक्कड, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
4.	7-पालाक्कड	श्री कृष्णादास, मरियनकोड, पुथुर पो., पालाक्काड, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
5.	11-एरनाकुलम	श्री मुनामबमहामजा काबुनकाड़ा, सन्तोष लेन, अलुवा-683101 केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
6.	11-एरनाकुलम	श्री थानकप्पन, 5/138, कोथेलीपाराम्ब, कुट्टामसेरी, कीझमाड, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
7.	12-मुवाट्टुपूझा	श्री इस्माइल, थेकेमंगलम, इराटुपेट्टा पो., मीनाचिल, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
8.	12-मुवाट्टुपूझा	श्री पी. ए. इस्माइल, पालासेरी कोलीयाराम्बिल, 8/250, ए. आर. नगर, थिरूरंगाडी, कुटूर नार्थ पोस्ट, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	12-मुवाट्टुपूझा	श्री जॉनी मानी, पुल्लीटेल, राकड, मेकाडाम्बु पो., पिन-682316, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
10.	12-मुवाट्टुपूझा	श्री पी. सी. थोमस, पजियानकल हाउस, न. 209, चिरकाडाव पोस्ट, कनजरीरापल्ली, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
11.	12-मुवाट्टुपूझा	श्री के. एन. राजशेखरन नायर, 8/550, श्रीरागम, चोट्टानिकारा, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
12.	12-मुवाट्टपुझा	श्री पी. पी. सन्तोष, पुथेनपुरा थुंडियिल माराडु पो., एरनाकुलम, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
13.	19-चिरायिनकिल	श्री एम. बी. थन्कापन्न, टी. सी. 24/810, थीकॉड, तिरुवन्तापुरम, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।
14.	19-चिरायिनकिल	श्री शान्ति नगर सोमन, थाडाथारीकाथु वीडु, शान्ति नगर, कून्नानवेंगा पो., नडुमंगाडु, केरल	लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं० 76/केरल-लो०स०/2004]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O. N. 67.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in Column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2004 held from the Constituencies of Kerala State as specified in the Column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses and failed to lodge the account in the manner required by law as mentioned in Column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 3 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Name & Address of the contesting candidate.	Reason for disqualification
1	2	3
1	2	4
1. 1-Kasaragod	Sh. M. A. Mohammed, S/o Abdul Khader, Mottayil House, Panalam, Cheroor (PO) Kerala	Accounts not lodged
2. 2-Cannanore	Sh. M. Ramachandran, Minukki House, P. O. Kottayam, Malabar, Kerala	Accounts not lodged
3. 7-Palakkad	Sh. K. Kuttikrishnan, Muthalakulam Colony, Kavassery P. O. Palakkad, Kerala	Accounts not lodged
4. —do—	Sh. Krishnadas, Mariyankode, Puthur P. O. Palakkad, Kerala	Accounts not lodged

3333 GI/04-4

1	2	3	4
5.	11-Erankulam	Sh. Munambam Hamza Kavumkada Santhosh Lane, Aluva-683101, Kerala	Accounts not lodged
6.	11-Erankulam	Sh. Thankappan, 5/138, Kotheliparamb, Kuttamassery, Keezhmad, Kerala	Accounts not lodged
7.	12-Muvattupuzha	Sh. Ismail, Thekkemangalam, Erattupetta P. O. Meenachil, Kerala	Accounts not lodged
8.	12-Muvattupuzha	Sh. P. A. Ismayl, Palasseril Kooliparambil, 8/250, A. R. Nagar, Thiiroorangadi, Kuttloor North Post, Kerala	Accounts not lodged
9.	12-Muvattupuzha	Sh. Johny Mani, Pullittel, Rakkad, Mekkadambu, P. O. PIN-682316, Kerala	Accounts not lodged
10.	12-Muvattupuzha	Sh. P. C. Thomas, Pazhiyamkal House, House No. 209, Chirakidavu P. O. Kanjirappilly, Kerala	Accounts not lodged
11.	12-Muvattupuzha	Sh. K. N. Rajasekharan Nair, 8/550, Sreeragam, Chottanikkara, Kerala	Accounts not lodged
12.	12-Muvattupuzha	Sh. P. P. Santhosh, Puthanpurathundiyl, Maradu P. O., Ernakulam. Kerala	Accounts not lodged
13.	19-Chirayinkil	Sh. M. B. Thankappan, T. C. 24/810, Thycaud, Thiruvananthapuram, Kerala	Accounts not lodged
14.	19-Chirayinkil	Sh. Santhi Nagar Soman, Thadatharikathu Veedu, Santhi Nagar, Koonanvenga, P.O. Nedumangad, Kerala	Accounts not lodged

[No. 76/K.L.-H.P.. /2004]

By Order

TAPAS KUMAR Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2004

आ० अ० 68.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री कृष्ण बल्लभ अग्रवाल, आई. ए. एस. के स्थान पर

श्री राकेश कुमार गुप्ता, आई. ए. एस. (जे. के. : 86) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री राकेश कुमार गुप्ता जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री राकेश कुमार गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर के पद पर कार्य करते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं० 154/जे० एण्ड के०/2004-का० प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवसर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2004

O.N. 68.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Government of Jammu & Kashmir, hereby nominates Shri Rakesh Kumar Gupta, IAS (JK : 86) as the Chief Electoral Officer for the State of Jammu & Kashmir with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri Krishan Ballabh Agarwal, IAS.

2. Shri Rakesh Kumar Gupta shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Jammu & Kashmir, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Rakesh Kumar Gupta while functioning as the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Jammu & Kashmir except that he should be designated Secretary to the Government in charge of election department in the state secretariat.

[No. 154/J. & K. /2004-P. Admn.]

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

आ० अ० 69.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट राजस्थान विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनिर्दिष्ट बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है :

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रम संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	28-झुंझुनू	श्री रक्त मु. पो. इस्लामपुर झुंझुनू, राजस्थान	लेखा दाखिल नहीं किया

1	2	3	4	5
2.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	38-चौमूं	श्री सतीश कुमार 25 नेहरू नगर नौ दुकानों के पीछे, जयपुर	लेखा रीति द्वारा दाखिल नहीं किया
3.	-वही-	-वही-	श्री सुन्दर लाल कसाईयों की मौरी बाहर, गांधी चौक, चौमूं	लेखा दाखिल नहीं किया
4.	-वही-	-वही-	श्री राज कंवर ग्राम सान्दरसर, चौमूं	-वही-
5.	-वही-	40-जयपुर ग्रामीण	श्री जगदीश करोल करोल हाउस, राजविलास होटल के सामने, जयपुर	-वही-
6.	-वही-	-वही-	श्री प्रकाश रिझवानी 115/185, अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर	-वही-
7.	-वही-	-वही-	डा. शम्बीर खान लोक नायक व्यास कालोनी, मदीना मस्जिद के पास, नाहरी का नाका, जयपुर	-वही-
8.	-वही-	-वही-	श्री जय श्री कृष्ण शर्मा वरदराज मंदिर गुजर घाटी, आमेर रोड़, जयपुर	-वही-
9.	-वही-	42-जौहरी बाजार	श्री मोहन केसवानी 1/1299, मालवीय नगर, जयपुर	-वही-
10.	-वही-	-वही-	श्री साबिर खान ए-1, सुदामा पुरी, जनता कोलोनी, आगरा रोड़, जयपुर	-वही-
11.	-वही-	-वही-	श्री सीताराम जयसवाल 5269, रैगरो की कोठी, सेनल का पीपल, वार्ड नं 44, चांदी का ताजीया, घाटगेट, जयपुर	-वही-
12.	-वही-	44-बनीपार्क	श्री मनोज जैन ई-15, मधुबन कालोनी, टोंक फाटक, जयपुर, राजस्थान	-वही-
13.	-वही-	45-फुलेरा	श्री श्याम सिंह वार्ड नं. 3, माता जी का रास्ता, जोबनेर, जिला जयपुर	-वही-

1	2	3	4	5
14.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	56-कोटपूतली	श्री रघुवीर, मु. पो. सुन्दरपुरा, कोटपूतली	लेखा दाखिल नहीं किया
15.	-वही-	-वही-	डा. रघुवीर सिंह गौड गौड क्लिनिक, कोटपूतली	लेखा विधि द्वारा दाखिल नहीं किया
16.	-वही-	58-बहरोड़	श्री किशोरी लाल, ग्रा. सलारपुर, पो. नाथोड़ी, नह. बहरोड़	लेखा दाखिल नहीं किया
17.	-वही-	60-तिजारा	श्रीमती किरन ग्राम पोस्ट एवं तहसील कोटकासिम, जि. अलवर	-वही-
18.	-वही-	-वही-	श्री शीशराम ग्राम व पोस्ट-भिवाडी, तहसील तिजारा, जिला-अलवर	-वही-
19.	-वही-	61-खैरथल(अ.जा.)	श्री सुखदेव ग्राम खुदनपुरी पोस्ट/तहसील/जिला अलवर	-वही-
20.	-वही-	-वही-	श्री रामप्रसाद ग्राम-रायबका वाया-अलवर, जिला-अलवर(राज.)	-वही-
21.	-वही-	-वही-	श्री रमेश चन्द ग्राम/पोस्ट-हरसोली. तहसील कोटकासिम जिला-अलवर(राज.)	-वही-
22.	-वही-	62-रामगढ़	श्री फजरू खां, ग्राम-लौहरबाड़ी, पोस्ट-चौरोटी पहाड़ रामगढ़ (अलवर)	-वही-
23.	-वही-	-वही-	श्री कंवर सिंह ग्रा.-भजेड़ा पो. बहादुरपुर अलवर	-वही-
24.	-वही-	-वही-	श्री नानक राठौर गुरुद्वारे के पास, रामगढ़	-वही-
25.	-वही-	64-थानागाजी	श्री करण सिंह ग्राम-झीतरेडी पो. सेमलकलां तह. नगर (भरतपुर)	-वही-

1	2	3	4	5
26.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	64-थानागाजी	श्री पूर्ण चन्द मु. पो. माजरा तह. बहरोड जिला अलवर (राज.)	लेखा दाखिल नहीं किया
27.	-वही-	68-कामां	श्री दीन मोहम्मद ग्राम गढ़अजान तह. कामां	-वही-
28.	-वही-	71-कुम्हेर	श्री गोपी चन्द, ग्राम लुधवाड़ा पोस्ट सोगर, कुम्हेर	-वही-
29.	-वही-	72-भरतपुर	श्री राजकुमार शर्मा नमक कटरा वार्ड नं. 33, भरतपुर	-वही-
30.	-वही-	72-रूपवास(अ.जा.)	श्री रामचन्द मैन मार्केट उच्चैन रूपवास	-वही-
31.	-वही-	78-धौलपुर	श्री हुकम सिंह ग्राम व पोस्ट तसीमों तहसील सैपड, जिला धौलपुर	-वही-
32.	-वही-	82-खण्डार(अ.ज.जा.)	श्री बाबूलाल खानपुर वाले बलवनखुर्द पोस्ट चितारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर	-वही-
33.	-वही-	-वही-	श्री गिरधारी ग्राम करीरा कलां पोस्ट अक्षयगढ़ तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर	-वही-
34.	-वही-	83-सवाई माधोपुर (अ.ज.जा.)	श्री बक्शीलाल मीणा ग्राम व पोस्ट अजनेटी, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान) पिन 322027	-वही-
35.	-वही-	84-बामनवास (अ.ज.जा.)	श्री बत्ती लाल मीणा मु. पो. मलारना चौड़ तह. मलारना झूंगर जिला सवाई माधोपुर	-वही-
36.	-वही-	-वही-	शोभा सराय का स्थान मथुरेश भवन लाडपुरा कोटा हाल ग्राम अभयपुरा पो. राधोपुरा तह. बामनवास जिला सवाईमाधोपुर	-वही-

1	2	3	4	5
37.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	85-गंगापुर	श्री मोहन सिंह, ग्राम मीनाबंडोदा, तह. गंगापुर सिटी, राज.	लेखा दाखिल नहीं किया
38.	-वही-	-वही-	श्री राम प्रसाद, ग्राम मिर्जापुर, तह. गंगापुर सिटी, राजस्थान	-वही-
39.	-वही-	88-टोडाभीम (अ.ज.जा.)	श्री रमेश चन्द मीणा, ग्राम मोनापुरा, पो. दादनपुर, तहसील टोडाभीम	-वही-
40.	-वही-	100-मसूदा	श्री प्रकाशचन्द, बल्द भंवरलाल दमामी, ग्राम लोरडी, तहसील मसूदा	-वही-
41.	-वही-	103-हिण्डोली	श्री जमनालाल, ग्राम खोडी, पोस्ट जजावर तह. नैनवा, जिला बून्दी	-वही-
42.	-वही-	-वही-	श्रीमती मंजू देवी, ग्राम. पो. बासनी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी	-वही-
44.	-वही-	108-लाडपुरा	श्री सुरेश चन्द पांचाल, 26-सी, केनाल रोड, गायत्री शिवसेना विहार कोटा	-वही-
45.	-वही-	110-पीपल्दा	श्रीप्रहलाद कुमार, ग्राम गुंजारा, पोस्ट बास्याहेड़ी, वाया कनवास तह. सांगोद, जिला कोटा	-वही-
46.	-वही-	121-बेगूं	श्री राजेन्द्रसिंह, 327, मीरा नगरी, वार्ड नं. 6, चित्तौड़गढ़	-वही-
47.	-वही-	122-गंगारार(अ.जा.)	श्री किशोर कुमार खटीक, मु. पो. राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़	-वही-
48.	-वही-	123-कपासन	श्री भैरूलाल खटीक, मु. पो. गौराजी का निम्बाहेड़ा, वाया कपासन, जिला चित्तौड़गढ़	-वही-

1	2	3	4	5
49.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	125-निम्बाहेड़ा	श्री शान्तिलाल मीणा, सगवाड़िया, पो. बाड़ी, वाया निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)	लेखा दाखिल नहीं किया
50.	-वही-	128-कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री वरसिंग पिता हरजी, निवासी चोरबड़ा, पोस्ट—चोरबड़ा, तह. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा	-वही-
51.	-वही-	131-बांसवाड़ा	श्री रामचन्द्र जोशी, गांव खखरिया गढ़ा, पोस्ट आसन, तह. गढ़ी	-वही-
52.	-वही-	134-चौरासी (अ.ज.जा.)	श्री विरेन्द्र, मु. पो. मालाखोलडा, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर	-वही-
53.	-वही-	136-आसपुर (अ.ज.जा.)	श्री नरेन्द्र कुमार मीणा, निवासी कला भाणी, वगलई मु. पो. साबला, तह. आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)	-वही-
54.	-वही-	139-मावली	श्री कर्मवीर चौधरी, 671, सिक्ख कॉलोनी, से. नं. 11, उदयपुर	-वही-
55.	-वही-	150-भीम	श्री मीठा राम, बरार, पो. बरार, तह. भीम	-वही-
56.	-वही-	155-जहाजपुर	श्री ओम प्रकाश, मु. पो. गुडा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	-वही-
57.	-वही-	-वही-	श्री दुर्गा लाल प्रजापति, ग्राम पोस्ट—खेजडी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर	-वही-
58.	-वही-	160-रायपुर	श्री सोहन लाल जाट, गोविन्द कोलानी पी. जी. फोइल्स के पास, ग्राम पोस्ट पिपलीय कलां, तह. रायपुर, जिला पाली	-वही-
59.	-वही-	166-बाली	श्री केवलचन्द, धरू का जाव, बाली, राजस्थान	-वही-

1	2	3	4	5
60.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	169-रेवदर	श्री देवाराम कोली मु. वाडका, पो. जौलपुर, तह. रेवदर, सिरौही	लेखा दाखिल नहीं किया
61.	-वही-	173-जालौर (अ.जा.)	श्री हस्तीमल नया बस स्टेण्ड, हनुमान नगर, जालौर (राजस्थान)	-वही-
62.	-वही-	174-अहोरा	श्री शेर खॉ पुत्र बली मोहम्मद मु. पो. नोखा, तहसील आहोरा, जिला जालौर	-वही-
63.	-वही-	-वही-	श्री जुहारमल मीणा पुत्र खसाजी मीणा ग्राम सेदरिया बालोतान, पोस्ट पावटा, तहसील आहोरा, जिला जालौर	-वही-

[सं० 76/राज०/2003(2)]

आदेश से,

एस० के० कौरा, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th November, 2004

O.N. 69.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 2003, specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	28-Jhunjhunu	Sh. Barkat HQ. & P.O-Islampur Jhunjhunu, Rajasthan	Account not lodged.

3333 61/04-6

1	2	3	4	5
2.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	38-Chomu	Sh. Satish Kumar 25, Nehru Nagar, Behind 9 Shops, Jaipur	Account not lodge in manner required by law.
3.	—do—	—do—	Sh. Sundar Lal Kasaion Ki Mori Bahar, Gandhi Chowk, Chomu, Rajasthan	Account not lodged.
4.	—do—	—do—	Sh. Raj Kunwar Vill. -Sandarsar, Chomu, Rajasthan	—do—
5.	—do—	40-Jaipur Rural	Sh. Jagdish Karol, Karol House, Infront of Rajvilash Hotel, Jaipur, Rajasthan	—do—
6.	—do—	—do—	Sh. Prakash Rijhwani 115/185, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan	—do—
7.	—do—	—do—	Dr. Shabir Khan, Lok Nayak Vyas Colony, Near Madina Masjid, Nahri Ka Naka, Jaipur, Rajasthan	—do—
8.	—do—	—do—	Sh. Jai Shri Krishan Sharma, Baradraj Mandir, Gujar Ghati, Amer Road, Jaipur, Rajasthan	—do—
9.	—do—	42-Joharibazar	Sh. Mohan Keswani 1/1299, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	—do—
10.	—do—	—do—	Sh. Sabeer Khan, A-1, Sudampuri, Janata Colony, Agra Road, Jaipur, Rajasthan	—do—
11.	—do—	—do—	Sh. Sita Ram Jaiswal 5269, Raingaro Ki Kothi, Senal Ka Pipal, Ward No. 44, Chandi Ka Tajiya, Ghatgate, Jaipur, Rajasthan	—do—
12.	—do—	44-Banipark	Sh. Manoj Jain, E-15, Madhuban Colony, Tonk Fatak, Jaipur, Rajasthan	—do—
13.	—do—	45-Phulera	Sh. Shyam Singh, Ward No. 3, Mata Ji Ka Rasta, Jobner, Dist. Jaipur, Rajasthan	—do—

1	2	3	4	5
14.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	56-Kotputli	Sh. Raghuveer, M./P.O. Sundarpura, Kotputli, Rajasthan	Account not lodged.
15.	—do—	—do—	Dr. Raghuveer Singh Gaur, Gaur Clinic, Kotputli, Rajasthan	Account not lodged in manner required by law.
16.	—do—	58-Behror	Sh. Kishori Lal, Vill. Salarpur, P.O. Naghora, Teh. Behror	Account not lodged.
17.	—do—	60-Tizara	Smt. Kiran, Vill. P.O. and Teh. Kotkasini, Dist. Alwar	—do—
18.	—do—	—do—	Sh. Shish Ram, Vill. and P.O. Bhiwadi, Teh. Tizara, Dist. Alwar, Rajasthan	—do—
19.	—do—	61-Khairthal (SC)	Sh. Sukh Dev, Vill. -Khudanpuri, P.O./Teh. and Dist. Alwar, Rajasthan	—do—
20.	—do—	—do—	Sh. Ram Prasad, Vill. -Raibaka, Via- Alwar, Dist. Alwar, Rajasthan	—do—
21.	—do—	—do—	Sh. Ramesh Chand. Vill. and P.O. Harsoli, Teh. - Kotkasini, Dist. Alwar, Rajasthan	—do—
22.	—do—	62-Ramgarh	Sh. Fajru Khan, Vill. -Loharbari, P.O. Chauroti, Pahar Ramgarh (Alwar), Rajasthan	—do—
23.	—do—	—do—	Sh. Kavar Singh, Vill. -Bhajera, P.O. Bahadarpur, Alwar, Rajasthan	—do—
24.	—do—	—do—	Sh. Nanak Rathore, Gurdware ke pas, Ramgarh, Rajasthan.	—do—
25.	—do—	64-Thanagazi	Sh. Karan Singh, Vill. - Jhitredi, P.O. Semlakalan, Teh. Nagar (Bharatpur). Rajasthan	—do—
26.	—do—	—do—	Sh. Pooran Chand, M/P.O. Madra, Teh. Behror, Dist. Alwar, Rajasthan	—do—

1	2	3	4	5
27.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	68-Kaman	Sh. Deen Mohammed, Vill.-Gardhjaan, Teh. Kaman, Rajasthan	Account not lodged.
28.	—do—	71-Kumher	Sh. Gopi Chand, Vill.-Ludhwara, Post-Sogar, Dist.-Kumher	—do—
29.	—do—	72-Bharatpur	Sh. Raj Kumar Sharma Namak Katra, Ward No. 33, Bharatpur	—do—
30.	—do—	73-Rupbas(SC)	Sh. Ram Chand, Main Market, Uchain, Rupbas, Rajasthan	—do—
31.	—do—	78-Dholpur	Sh. Hukam Singh, Vill. and P.O. Tasimon, Teh.-Saipau, Dist. Dholpur, Rajasthan	—do—
32.	—do—	82-Khandar(SC)	Sh. Babulal, Khanpurwale Balwankhurd, Post. Chitara, Teh. and Dist. Sawai Madhopur.	—do—
33.	—do—	—do—	Sh. Girdhari, Vill.-Karirakalan, P.O. Akshaygarh, Teh. Khandar, Dist. Sawai Madhopur, Rajasthan	—do—
34.	—do—	83-Sawai Madhopur	Sh. Bansi Lal Meena Vill. and P.O. Ajanoti, Teh. and Dist. Sawai Madhopur, Rajasthan, Pin-322027	—do—
35.	—do—	84-Bamanwas(ST)	Sh. Bati Lal Meena, M/P.O. Malarana Chaur, Teh. Malarana Dungar, Dist. Sawai Madhopur	—do—
36.	—do—	—do—	Shobha Sarai Ka Sthan, Mathuresh Bhawan, Ladpura Kota Hal Gram, Abhaypura, Post Raghapur, Teh.-Bamanwas, Dist. Sawai Madhopur, Rajasthan	—do—
37.	—do—	85-Gangapur	Sh. Mohan Singh, Vill.-Meenabaroda, Teh. Gangapur City, Rajasthan	—do—
38.	—do—	—do—	Sh. Ram Prasad Vill.-Mirzapur, Teh. Gangapur City, Rajasthan	—do—

1	2	3	4	5
39.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	88-Toda Bhim (ST)	Sh. Ramesh Chand Meena, Vill- Maunapura, P.O. Dadanpur, Teh. -Toda Bhim Rajasthan	Account not lodged.
40.	—do—	100-Masuda	Sh. Prakash Chand, S/o- Bhanwarlal Damani, Vill-Lordi, Teh-Masuda, Rajasthan	—do—
41.	—do—	103-Hindoli	Sh. Jamna Lal, Vill-Khodi, Po. Jajawar, Rajasthan	—do—
42.	—do—	—do—	Smt. Manju Devi, Vill & Po. Basani, Teh. Hindoli, Dist.- Bundi, Rajasthan	—do—
43.	—do—	108-Ladpura	Sh. Suresh Chand Panchal, 26-C, Cenal Road, Gaytri Shivsena Vihar, Kota, Rajasthan	—do—
44.	—do—	—do—	Sh. Govind Sharma, 114, Rangvihar, Mahavir Nagar-3rd, Kota, Rajasthan	—do—
45.	—do—	110-Pipalda(SC)	Sh Prahald Kumar, Vill-Gunjara, Po.- Basyahedi, Via- Kanwas, Teh. - Sangod, Dist-Kota, Rajasthan	—do—
46.	—do—	121-Begun	Sh. Rajendra Singh, 327, Meera Nagari, Ward No. 6, Chittorgarh, Rajasthan	—do—
47.	—do—	122-Gangrar (SC)	Sh. Kishor Kumar Khatik, M/Po. Rasmi, Teh. Rasmi, Dist.- Chittorgarh, Rajasthan	—do—
48.	—do—	123-Kapasin	Sh. Bheru Lal Khatik, M/Po. Gauraji Ka Nimbahera, Via- Kapasin, Dist. Chittorgarh, Rajasthan	—do—
49.	—do—	125-Nimbaher	Sh. Shanti Lal Meena, Sagwadiya, Po. Bari, Via- Nimbahera, Dist-Chittorgarh	—do—

1	2	3	4	5
50.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	128-Kushalgarh (ST)	Sh. Varsing, S/o- Harji, Chorbada, Post-Chorbada, Teh. Kaushalgarh, Dist- Banswara	Account not lodged.
51.	—do—	131-Banswara	Sh. Ramchandra Joshi, Vill- Khakhariya, Gadha, Post-Aasan, Teh. Garhi, Rajasthan	—do—
52.	—do—	134-Chorasi(ST)	Sh. Virendra, M/Po-Malakholda, Teh. Simalwada, Dist- Dungarpur, Rajasthan	—do—
53.	—do—	136-Aspur (ST)	Sh. Narendra Kumar Meena, Phaladhani, Vaglai, M/Po-Sawala, Teh. Aspur, Dist-Dungarpur, Rajasthan	—do—
54.	—do—	139-Mavli	Sh. Karamveer Choudhary, 671, Sikh Colony, Sector No. 11, Udaipur, Rajasthan	—do—
55.	—do—	150-Bhim	Sh. Mitha Ram, Barar, Po. - Barar, Teh. -Bhim, Rajasthan	—do—
56.	—do—	155-Jahazpur	Sh. Om Prakash, M/ Po.-Gudha, Teh. Jahazpur, Dist.- Bhilwara, Rajasthan	—do—
57.	—do—	—do—	Sh. Durga Lal Prajapati Vill & Po. - Khejdi, Teh. Kekri, Ajmer	—do—
58.	—do—	160-Raipur	Sh. Sohan Lal Jat, Govind Colony, Near P. G. Foils, Vill & Po.- Pipliya kalan, Teh. Raipur, Dist-Pali	—do—
59.	—do—	166-Bali	Sh. Kewal Chandra, Dharu Ka Jav Bali, Rajasthan	—do—
60.	—do—	169-Reodar (SC)	Sh. Deva Ram Koli, Mu- Wadka, Po-Jolepur Teh- Reodar, Dist-Sirohi	—do—

1	2	3	4	5
61.	General Election to the Legislative Assembly, 2003	173-Jalore(SC)	Sh. Hasti Mal, New Bus Stand, Hanuman Nagar, Dist- Jalore, Rajasthan	Account not lodged.
62.	—do—	174-Ahore	Sh. Sher Khan, S/o-Bali Mohammed, M/Po-Norw Teh. Ahore, Dist-Jalore,	—do—
63.	—do—	—do—	Sh. Juhar Mal Meena, S/o- Khasaji Meena, Vill-Sedariya, Balotan, Post-Pawta, Teh-Ahore	—do—

[No. 76/RJ/2003(2)]

By Order

S. K. KAURA, Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2004

आ० अ० 70.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा श्री करण ए. सिंह, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री एस. के. संधु आई. ए. एस. (पी. बी. 1987) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. आयोग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पूर्णकालिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेतु जोर नहीं दे रहा है और श्री एस. के संधु को अपने नियमित अतिरिक्त कार्यभार अपने पास रखने की अनुमति देता है।

[सं० 154/चण्डी०/2004-का० प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2004

O.N. 70.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with the Administration of the Union Territory of Chandigarh hereby nominates Shri S. K. Sandhu, IAS (PB:1987) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Chandigarh with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri Karan A. Singh, IAS.

2. The Commission is not insisting on a full-time Chief Electoral Officer in the Union Territory of Chandigarh and has allowed Shri S.K. Sandhu to retain his regular additional charges.

[No. 154/CH/2004-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.